

017

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

**साप्ताहिक**  
**WEEKLY**

सं. 31] नई दिल्ली, दिसम्बर 19—दिसम्बर 25, 2004, शनिवार/अग्रहायण 28—पौष 4, 1926  
No. 31] NEW DELHI, DECEMBER 19—DECEMBER 25, 2004, SATURDAY/AGRAHAYANA 28—PAUSA 4, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

अ. 82.— यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मिजोरम विधान सभा, 2003 के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उनके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अम्भर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अम्भर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ(4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

### सारणी

| क0 सं0 | निर्वाचन का विवरण                             | निर्वाचन-क्षेत्र की क0 सं0 और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता                   | निरर्हता का कारण                                          |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                             | 3                                 | 4                                                            | 5                                                         |
| 1.     | मिजोरम विधान सभा, 2003 के लिए साधारण निर्वाचन | 17-सैतुल (अ.ज. जा.)               | श्री सखावालियाणा जनता दल (यु) तलांगुआम अइजावल, मिजोरम        | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें |
| 2.     | मिजोरम विधान सभा, 2003 के लिए साधारण निर्वाचन | 20-सुआंगपुइलान (अ.ज.जा.)          | श्री ए.सैमा, सी पी आई जेमाबाक अइजावल, मिजोरम                 | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें |
| 3.     | -वही-                                         | 31-लुंगफो (अ.ज. जा.)              | श्री लालछुआना जनता दल (यु) दिननथार अइजावल मिजोरम             | -वही-                                                     |
| 4.     | -वही-                                         | 37-अइजावल पश्चिम-1 (अ.ज. जा.)     | श्री लालावम्पुइया खैआंगते जनता दल (यु) दिननथार अइजावल मिजोरम | विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया         |

[सं० 76/मिजो०-वि०स०/2003]

आदेश से,  
के० अजय कुमार, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2004

O. N. 82.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the TABLE below at the General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said TABLE; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the TABLE below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for period of three years from the date of this order:-

**TABLE**

| Sl. No. | Particulars of Election                                       | No. and Name of Constituency | Name & Address of Contesting Candidate (S/Shri)      | Reason for disqualification                           |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                             | 3                            | 4                                                    | 5                                                     |
| 1       | General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2003 | 17-Saitul (ST)               | Shri Sakhawliana, JD(U), Tlangnuam, Aizawl, Mizoram. | Failed to lodge any account of his election expenses. |
| 2.      | General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2003 | 20-Suangpuilawn (ST)         | Shri A. Siama, CPI Zemabawk, Aizawl, Mizoram         | Failed to lodge any account of his election expenses  |
| 3.      | General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2003 | 31-Lungpho (ST)              | Shri Lalchhuana, JD(U), Dinthar, Aizawl, Mizoram.    | Failed to lodge any account of his election expenses  |

| 1  | 2                                                             | 3                       | 4                                                         | 5                                              |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4. | General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2003 | 37-Aizawl West – I (ST) | Shri Lalawmpuia Kiangte, JD(U) Dinthar-I, Aizawl, Mizoram | Failed to lodge in the manner required by law. |

[No. 76/MIZ-LA/2003]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आ० अ० 83.— निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहा है :

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है:

अब: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन क या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :-

## सारणी

| क्रम सं० | निर्वाचन का विवरण                                | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता                                                                   | निरहता का कारण            |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                                | 4                                                                                                            | 5                         |
| 1.       | छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003 | 8-पिलखा (अ.ज.जा.)                                | श्री रघुवर,<br>ग्राम तुलसी, पो. लटोरी,<br>तह. सूरजपुर, जिला-सरगुजा<br>छत्तीसगढ़                              | कोई लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 2.       | -वही-                                            | -वही-                                            | श्री बेरनादेत जोसेफ<br>ग्राम शिवनंदनपुर तालाबपारा<br>पो. विश्रामपुर, तह. सूरजपुर,<br>सरगुजा, छत्तीसगढ़       | -वही-                     |
| 3.       | -वही-                                            | -वही-                                            | श्री नरेन्द्र कुमार सिंह<br>ग्राम कल्याणपुर, पो. कल्याणपुर<br>तह. सूरजपुर, जिला सरगुजा<br>छत्तीसगढ़          | -वही-                     |
| 4.       | -वही-                                            | -वही-                                            | श्री महेन्द्र प्रसाद सोनपाकर<br>ग्राम पकनी, पो. चन्द्रमेढा<br>तहसील सूरजपुर, सरगुजा<br>जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़ | -वही-                     |
| 5.       | -वही-                                            | 9-अंबिकापुर(अ.ज.जा.)                             | श्री गुरुशरण सिंह पैकस<br>ग्राम लिबरा, पो. दरिमा<br>तह. अंबिकापुर<br>जिला-सरगुजा,<br>छत्तीसगढ़               | -वही-                     |
| 6.       | -वही-                                            | -वही-                                            | श्री गंझाराम ठाकुर<br>ग्राम एवं पोस्ट परसा, विकास<br>खण्ड एवं थाना- अम्बिकापुर,<br>सरगुजा छत्तीसगढ़          | -वही-                     |
| 7.       | -वही-                                            | -वही-                                            | श्री देवनारायण सिंह गोड़<br>जरहागढ़ (जैनातालाब) थाना<br>एवं तह. अम्बिकापुर,<br>जिला-सरगुजा<br>छत्तीसगढ़      | -वही-                     |

3685 GI/04-2

| 1   | 2                                                      | 3                         | 4                                                                                                                                                     | 5                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8.  | छत्तीसगढ़ विधान सभा<br>के लिए साधारण<br>निर्वाचन, 2003 | 10—सीतापुर (अ.ज.जा.)      | श्री शिराचन्द<br>ग्राम राजापुर, पो. गुतुरमा<br>थाना/तह. सीतापुर, जिला<br>सरगुजा, छत्तीसगढ़                                                            | कोई भी लेखा<br>दाखिल करने<br>में असफल<br>रहे। |
| 9.  | —वही—                                                  | 10—सीतापुर (अ.ज.जा.)      | श्री नेतराम<br>ग्राम पपरेंगा<br>पोस्ट बतौली, तह. सीतापुर<br>जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़                                                                    | —वही—                                         |
| 10. | —वही—                                                  | 11—बगीचा (अ.ज.जा.)        | राममूनी<br>ग्राम कुरडेग, पोस्ट कुरडेग<br>तह. बगीचा, जिला जशपुर<br>छत्तीसगढ़                                                                           | —वही—                                         |
| 11. | —वही—                                                  | —वही—                     | श्री जोवाकिम<br>ग्राम रूपसेरा<br>पो. बगीचा, तह. बगीचा,<br>जिला जशपुर, छत्तीसगढ़                                                                       | —वही—                                         |
| 12. | —वही—                                                  | 14—पत्थलगांव<br>(अ.ज.जा.) | श्री पूरनसिंह<br>ग्राम पालीडीह, पोस्ट पालीडीह<br>तहसील पत्थलगांव<br>जिला जशपुर, छत्तीसगढ़                                                             | —वही—                                         |
| 13  | —वही—                                                  | 19— सरिया                 | श्री दयाराम<br>ग्राम ओड़ेकरा, पो. पुसौर,<br>जिला—रायगढ़, छत्तीसगढ़                                                                                    | —वही—                                         |
| 14. | —वही—                                                  | 24—मरवाही (अ.ज.जा.)       | श्री शिवहरि<br>ग्राम झिरनापोड़ी, पो.आ. धोबहर<br>थाना मरवाही, तहसील पेण्डारोड<br>जिला बिलासपुर,<br>छत्तीसगढ़                                           | —वही—                                         |
| 15. | —वही—                                                  | —वही—                     | श्री समरु राम<br>मोहल्ला बेंदरा—पानी,<br>ग्राम—डाहरीबहरा,<br>व्हाया—साल्हेघोरी,<br>पो.—अधियारखोह,<br>तहसील—पेण्डारोड,<br>जिला —बिलासपुर,<br>छत्तीसगढ़ | —वही—                                         |

| 1.  | 2.                                              | 3.          | 4.                                                                                                                      | 5.                                            |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16. | छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2003 | 25-कोटा     | श्री प्रदीप कुमार उर्फ दिप्पू<br>ग्राम खोडरी, पो. खोडरी,<br>थाना गौरेला<br>तह. पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर<br>छत्तीसगढ़ | कोई भी<br>लेखा दाखिल<br>करने में<br>असफल रहे। |
| 17. | -वही-                                           | 28-लोरमी    | श्री मुनीराम<br>चारभाठा खुर्द, तह. पंडरिया<br>जिला कबीरधाम, (कवर्धा)<br>छत्तीसगढ़                                       | -वही-                                         |
| 18. | -वही-                                           | 30-बिलासपुर | श्री अमर<br>वार्ड नं. 45, अरविन्द नगर<br>बंधवापारा, सरकंडा,<br>बिलासपुर, छत्तीसगढ़                                      | -वही-                                         |
| 19. | -वही-                                           | 31-बिल्हा   | श्री रामझुल साहू<br>ग्राम खरकेना, पो. हिरी<br>व्हाया हिरीमाईस,<br>जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़                              | -वही-                                         |
| 20. | -वही-                                           | 33-सीपत     | श्री रतनलाल<br>ग्राम मटियारी, पो. जांजी<br>थाना सीपत, ब्लॉक बिल्हा<br>तह. व जिला बिलासपुर<br>छत्तीसगढ़                  | -वही-                                         |
| 21. | -वही-                                           | 35-पामगढ़   | श्री छाया राम<br>ग्राम धनगांव, पो. आ. रसौटा<br>थाना व तह. पामगढ़<br>जिला-जांजगीर चाम्पा<br>छत्तीसगढ़                    | -वही-                                         |
| 22. | -वही-                                           | -वही-       | श्री सोनाउ राम<br>ग्राम रिंगनी, पो. बोरदा<br>व्हाया खरौद, तह. नवागढ़<br>जिला जांजगीर चाम्पा,<br>छत्तीसगढ़               | -वही-                                         |
| 23. | -वही-                                           | -वही-       | श्री राकेश<br>मु. सिलादेही, पो. आ. सिलादेही<br>तह. चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा<br>छत्तीसगढ़                              | -वही-                                         |

| 1   | 2     | 3                | 4                                                                                               | 5                                              |
|-----|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 24. | —वही— | 72—मारो (अ.जा.)  | श्री नरेन्द्र कुमार<br>ग्राम धोबनीकला, पो. प्रतापपुर,<br>तह. नवागढ़, छत्तीसगढ़                  | कोई भी लेखा<br>दाखिल करने<br>में असफल<br>रहें। |
| 25. | —वही— | —वही—            | श्री गौकरुण सिंह कुरे<br>ग्राम मुडपार, पोस्ट खेड़ा<br>तह. नवागढ़, छत्तीसगढ़                     | —वही—                                          |
| 26. | —वही— | —वही—            | श्री आनन्द राम डहरिया<br>ग्राम मुरकुटा, पो. हरदी,<br>तह. नवागढ़, जिला दुर्ग<br>छत्तीसगढ़        | —वही—                                          |
| 27  | —वही— | 89—वीरेन्द्र नगर | श्री संतलाल धुर्वे<br>ग्राम पो. समनापुर<br>थाना रेगाखार, तह. कवर्धा,<br>जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ | —वही—                                          |

[सं० 76/छ०ग०-वि०स०/2003]

आदेश से,  
एस. के. कौरा, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2004

**O. N. 83.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table:

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act. the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:

**TABLE**

| S.NO. | Particular of election                                      | S.No. & Name of Assembly Constituency | Name & Addressed of contesting candidate                                                                          | Reason for disqualification                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.    | 2.                                                          | 3.                                    | 4.                                                                                                                | 5.                                                 |
| 1.    | General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 | 8-Pilkha (ST)                         | Raghuwar Village-Tulsi, Post-Latori, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.                               | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 2.    | -Do-                                                        | -Do-                                  | Bernadet Joseph Village-Shivnandanpur, Talabpara, Post-Bishrampur, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh. | -Do-                                               |
| 3.    | -Do-                                                        | -Do-                                  | Narendra Kumar Singh, Village-Kalyanpur, Post-Kalyanpur, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.           | -Do-                                               |
| 4.    | -Do-                                                        | -Do-                                  | Mahendra Prasad Sonpakar, Village-Pakni, Post-Chandra-medha, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.       | -Do-                                               |
| 5.    | -Do-                                                        | 9-Ambikapur (ST)                      | Gurusharan Singh Painkara, Village-Libra, Post-Darima, Tah.-Amikapur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.               | -Do-                                               |
| 6.    | General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 | 9-Ambikapur (ST)                      | Ganjha Ram Thakur, Village & Post - Parsa, Tahsil- Ambikapur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.                       | Failure to lodge any account of election expenses. |

| 1.  | 2.                                                          | 3.                 | 4.                                                                                                          | 5.                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7.  | -Do-                                                        | -Do-               | Devnarayan Singh Gaur.<br>Jarahagarh (Jaina Talab)<br>Tah.-Ambikapur,<br>Distt.-Surguja,<br>Chhattisgarh.   | -Do-                                               |
| 8.  | -Do-                                                        | 10-Sitapur (ST)    | Shirachand,<br>Village-Rajapur,<br>Post-Guturma,<br>Tah.-Sitapur,<br>Distt.-Surguja,<br>Chhattisgarh.       | -Do-                                               |
| 9   | -Do-                                                        | -Do-               | Netram,<br>Village-Paprenga,<br>Post-Batouli,<br>Tah.-Sitapur,<br>Distt.-Surguja,<br>Chhattisgarh.          | -Do-                                               |
| 10. | -Do-                                                        | 11-Bagicha (ST)    | Rammuni,<br>Village-Kurdeg,<br>Post-Kurdeg,<br>Tahsil-Bagicha,<br>Distt.-Jashpur,<br>Chhattisgarh.          | -Do-                                               |
| 11. | -Do-                                                        | -Do-               | Jowakim,<br>Village-Rupsera,<br>Post-Bagicha,<br>Tahsil-Bagicha,<br>Distt.-Jashpur,<br>Chhattisgarh.        | -Do-                                               |
| 12. | General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly. 2003 | 14-Pathalgaon (ST) | Puran Singh,<br>Village-Palidih,<br>Post-Palidih,<br>Tahsil-Pathalgaon,<br>Distt.-Jashpur,<br>Chhattisgarh. | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 13. | -Do-                                                        | 19-Saria           | Dayaram,<br>Village-Odekera,<br>Post-Pussore,<br>Distt.-Raigarh,<br>Chhattisgarh.                           | -Do-                                               |

| 1.  | 2.                                                                   | 3.                     | 4.                                                                                                                                                              | 5.                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14. | -Do-                                                                 | <b>24-Marwahi (ST)</b> | Shivhari,<br>Village-Jhirnapondi,<br>Post-Dhobehar Thana<br>Marwahi,<br>Tah.-Pendraroad,<br>Distt.-Bilaspur,<br>Chhattisgarh.                                   | -Do-                                                     |
| 15. | -Do-                                                                 | -Do-                   | Samroo Ram,<br>Mohalla-Bendrapani,<br>Village-Dahibahra<br>Vhaiya-Salheghori,<br>Post-Andhiyari khoh.<br>Tah.-Pendra Road,<br>Distt.-Bilaspur,<br>Chhattisgarh. | -Do-                                                     |
| 16. | -Do-                                                                 | <b>25-Kota</b>         | Pradeep Kumar alias<br>Dippu,<br>Village-Khodari,<br>Post-Khodari,<br>Tah.-pendra Road,<br>Distt.-Bilaspur,<br>Chhattisgarh.                                    | -Do-                                                     |
| 17. | General Election<br>to Chhattisgarh<br>Legislative<br>Assembly. 2003 | <b>26-Lormi</b>        | Muni Ram,<br>Charbhatha-Khurd,<br>Tah.-Pandariya,<br>Distt.-Kabirdham<br>(Kawardha),<br>Chhattisgarh                                                            | Failure to lodge<br>any account of<br>election expenses. |
| 18. | -Do-                                                                 | <b>30-Bilaspur</b>     | Amar,<br>Ward No. 45, Arvind<br>Nagar, Bandhwapara,<br>Sarkanda, Bilaspur,<br>Chhattisgarh.                                                                     | -Do-                                                     |
| 19. | -Do-                                                                 | <b>31-Bilha</b>        | Ramjhoal Sahu,<br>Vill.- Kharkena,<br>Post-Hirri, Via-Hirri<br>Mines, Bilaspur,<br>Chhattisgarh.                                                                | -Do-                                                     |
| 20. | -Do-                                                                 | <b>33-Sipat</b>        | Ratanlal,<br>Vill.-matiyari,<br>Post-Janji,<br>Thana-Sipat, Block-<br>Bilha, Bilaspur,<br>Chhattisgarh.                                                         | -Do-                                                     |

| 1.  | 2.                                                                   | 3.                   | 4.                                                                                                                          | 5.                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 21. | -Do-                                                                 | 35-Pamgarh           | Chhayaram,<br>Vill.-Dhangson,<br>Post-Rasota,<br>Thana & Tah.-<br>Pamgarh,<br>Distt.-Janjgir-<br>Champa,<br>Chhattisgarh.   | -Do-                                                     |
| 22. | -Do-                                                                 | -Do-                 | Sonau Ram,<br>Vill.-Ringni,<br>Post-Borda, Via-<br>Kharod, Tehsil-<br>Navagarh, Distt.-<br>Janjgir-Champa,<br>Chhattisgarh. | -Do-                                                     |
| 23. | General Election<br>to Chhattisgarh<br>Legislative<br>Assembly, 2003 | 35-Pamgarh           | Rakesh,<br>At-Siladehi,<br>Post-Siladehi,<br>Tehsil-Champa,<br>Distt.-Janjgir-<br>Champa,<br>Chhattisgarh.                  | Failure to lodge<br>any account of<br>election expenses. |
| 24. | -Do-                                                                 | 72-Maró (SC)         | Narendra Kumar<br>Village-Dhobanikala,<br>Post-Pratappura,<br>Tha.-Nawagarh,<br>Chhattisgarh.                               | -Do-                                                     |
| 25. | -Do-                                                                 | -Do-                 | Goakaran Singh<br>Kurrey,<br>Village-Mudpar,<br>Post-Khera, Tah.-<br>Nawagarh, Distt.-<br>Durg, Chhattisgarh.               | -Do-                                                     |
| 26. | -Do-                                                                 | -Do-                 | Anand Ram Dahariya<br>Village-Murkuta,<br>Post-Hardi, Tah.-<br>Nawagarh, Distt.-<br>Durg, Chhattisgarh.                     | -Do-                                                     |
| 27. | -Do-                                                                 | 89-Virandra<br>Nagar | Sant Lal Dhurwey,<br>Gram-Samnapur,<br>P/O Samnapur,<br>P.S-Rengakhar,<br>Th.& Distt.-<br>Kabirdham,<br>Chhattisgarh.       | -Do-                                                     |

[No. 76/CG-LA/2003]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आ० अ० 84.— यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री भूषण साहू, मु. पो. हरदी (जर्वे) ब्लाया, जांजगीर, जिला जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़ जिन्होंने मई 2004 में हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए 34-अकलतरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है और आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा उक्त श्री भूषण साहू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० 76/छ०ग०-वि०स०/2004 (उप)]

आदेश से,

एस. के. कौरा, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 7th December, 2004

O. N. 84.— Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Bhushan Sahu, At Post Hardi (Jarwe), Via- Janjgir, Distt.- Janjgir-Champa, Chhattisgarh, a contesting candidate at the bye election to Chhattisgarh Legislative Assembly from 34-Akaltara Assembly Constituency held in May, 2004 has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder.

And, Whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Bhushan Sahu to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/CG-LA/2004 (Bye)]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

3685 GI/04-4

## आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आ० अ० 85.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है :—

## सारणी

| क्रम सं० | निर्वाचन का विवरण                                   | निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम सं० | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता                                                                     | निरहिता के कारण                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                   | 3                                  | 4                                                                                                              | 5                                                           |
| 1.       | बिहार राज्य से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004 | 3-मोतिहारी                         | श्री भगवान लाल साह,<br>ग्राम—ताजपुर नाजिर,<br>उर्फ—गड़हिया,<br>पोस्ट—गड़हिया,<br>जिला—पूर्वी चम्पारण,<br>बिहार | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 2.       | —वही—                                               | 6-महाराजगंज                        | श्री दिनेश राय,<br>ग्राम—गोदाना मठिया,<br>पोस्ट—रिविलगंज, सारण<br>छपरा, बिहार                                  | —वही—                                                       |
| 3.       | —वही—                                               | —वही—                              | श्री बृजेश सिंह,<br>ग्राम—बढैया,<br>पोस्ट—छिन्नौलिया,<br>भाया—एकमा,<br>जिला—सारण, बिहार                        | —वही—                                                       |
| 4.       | —वही—                                               | 7-छपरा                             | श्री राजेश्वर सिंह,<br>ग्राम—भाथा, पोस्ट—भाथा,<br>प्रखण्ड—मकेर,<br>जिला—सारण, बिहार                            | —वही—                                                       |
| 5.       | —वही—                                               | 9-वैशाली                           | श्री जैनेन्द्र कुमार,<br>ग्राम—करिहो,<br>थाना—महुआ,<br>जिला—वैशाली, बिहार                                      | —वही—                                                       |
| 6.       | —वही—                                               | —वही—                              | श्री उमेश साहनी,<br>ग्राम—कीरतपुर राजाराम,<br>थाना—भगवानपुर,<br>जिला—वैशाली, बिहार                             | —वही—                                                       |

| 1   | 2                                                   | 3          | 4                                                                                                        | 5                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | बिहार राज्य से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004 | 9-वैशाली   | श्री उपेन्द्र चौधरी,<br>ग्राम व पो.—लालूछपरा,<br>थाना—पारू,<br>जिला—मुजफ्फरपुर,<br>बिहार।                | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 8.  | —वही—                                               | —वही—      | श्री ब्रज किशोर सिंह,<br>ग्राम—रामकृष्ण दुबियाही,<br>सरैया,<br>जिला—मुजफ्फरपुर,<br>बिहार                 | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 9.  | —वही—                                               | —वही—      | श्री शम्भू प्रसाद सिंह,<br>ग्राम—कटारू, पो.—छाप,<br>जिला—मुजफ्फरपुर,<br>बिहार।                           | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 10. | —वही—                                               | 18-बाढ     | श्री आनंदी महतो,<br>ग्राम व पो.—लखनपुरा,<br>थाना—बख्तियारपुर, पटना,<br>बिहार।                            | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 11. | —वही—                                               | 19-बलिया   | श्री गणेश यादव,<br>ग्राम—बडी बलिया,<br>टोला छावनी पर<br>पो.—हुसैना, थाना—बलिया,<br>जिला—बेगूसराय, बिहार। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 12. | —वही—                                               | —वही—      | श्री कुलदीप नारायण सिंह पटेल,<br>ग्राम व पो.—सहसी,<br>जिला—खगडिया, बिहार।                                | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 13. | —वही—                                               | —वही—      | श्री महबूब आलम,<br>ग्राम—नुरपुर बनहारा,<br>डाकघर—खिदिरचक,<br>थाना—भगवानपुर,<br>जिला—बेगूसराय, बिहार।     | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 14. | —वही—                                               | —वही—      | श्री शाहिद अख्तर,<br>ग्राम व पो.—सोनिहार,<br>भाया—बखरी, थाना—अलौली,<br>जिला—खगडिया, बिहार।               | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 15. | —वही—                                               | 27-भागलपुर | श्री दिवाकर लाल वंशी,<br>एन०सी० चटर्जी रोड,<br>मुन्दीचक, भागलपुर,<br>बिहार।                              | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 16. | —वही—                                               | 31-नालंदा  | श्री चन्द्र भूषण कुमार,<br>ग्राम—मोजफरा, पो.—बडिह,<br>थाना—इस्लामपुर,<br>नालंदा, बिहार।                  | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |

| 1   | 2                                                   | 3           | 4                                                                                                     | 5                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | बिहार राज्य से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004 | 35-सासाराम  | श्री वशिष्ठ पासवान,<br>ग्राम लेंगर कैकई,<br>पो.—डुमरी, थाना-चेनारी,<br>जिला—रोहतास सासाराम,<br>बिहार। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 18. | —वही—                                               | —वही—       | श्री मदन राम,<br>ग्राम व. पो.—पंजराँव,<br>थाना-नुआँव,<br>जिला—कैमूर (भभूआ),<br>बिहार।                 | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 19. | —वही—                                               | —वही—       | श्री दुखी राम,<br>ग्राम-बधिनी, पो.—हरनाथपुर,<br>भाया-मोहनियाँ,<br>जिला—कैमूर, बिहार।                  | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 20. | —वही—                                               | —वही—       | श्री फेकू राम,<br>ग्राम-अलीपुर, पो.—डरवन,<br>जिला—कैमूर (भभूआ),<br>बिहार।                             | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |
| 21. | —वही—                                               | 38-जहानाबाद | श्री जगयानंद सिंह,<br>ग्राम-लटनपट्टी,<br>पो.—नेतौल,<br>थाना-पाली (काको),<br>जिला—जहानाबाद, बिहार।     | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।                       |
| 22. | —वही—                                               | —वही—       | श्री सत्येन्द्र प्रसाद यादव,<br>ग्राम-नईमा, पो.—नईमा,<br>थाना-घोसी,<br>जिला—जहानाबाद, बिहार।          | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं। |

[ सं० 76/बिहार-लो०स०/2004 ]

आदेश से,

आर० के० श्रीवास्तव, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2004

**O. N. 85.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2004 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| Sl. No. | Particulars of election                            | Number and name of the constituency | Name and address of the candidate                                                                                       | Reasons of disqualification                                                  |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                  | 3                                   | 4                                                                                                                       | 5                                                                            |
| 1.      | General Election to the House of the People, 2004. | 3-Motihari                          | Sh. Bhagwan Lal Shah,<br>Vill.-Tajpur Nazir URF Garahiya,<br>P.O.-Garahiya<br>Distt.-East Champaran,<br>Bihar           | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 2.      | —do—                                               | 6-Maharajganj                       | Sh. Dinesh Rai,<br>Vill.-Godna Mathiya,<br>P.O.-Rivilganj,<br>Saran (Chapra), Bihar                                     | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 3.      | —do—                                               | —do—                                | Sh. Brajesh Singh,<br>Vill.-Badhaya,<br>P.O.-Chitrawaliya, Via.-Ekma,<br>Distt.-Saran, Bihar                            | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 4.      | —do—                                               | 7-Chapra                            | Sh. Rajeshwar Singh,<br>Vill.-Bhatha,<br>P.O.-Bhatha, Block-Maker,<br>Distt.-Saran, Bihar                               | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 5.      | —do—                                               | 9-Vaishalli                         | Sh. Jainendra Kumar,<br>Vill.-Kariho,<br>PS-Mahua,<br>Distt.-Vaishali, Bihar                                            | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 6.      | —do—                                               | —do—                                | Sh. Umesh Sahani,<br>Vill.-Kiratpur Rajaram,<br>PS-Bhagwanpur,<br>Vaishali, Bihar                                       | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 7.      | —do—                                               | —do—                                | Sh. Upendra Choudhary,<br>Vill.+Post-Laloo,<br>Chhapra, PS.-Paroo,<br>Distt.-Muzaffarpur, Bihar                         | Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law. |
| 8.      | —do—                                               | —do—                                | Sh. Braj Kishor Singh,<br>Vill.-Ram Krishna Dubiyahi,<br>Saraiya,<br>Distt.-Muzaffarpur, Bihar                          | Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law. |
| 9.      | —do—                                               | —do—                                | Sh. Shambhu Prasad Singh,<br>Vill.-Kataru, Post-Chhap,<br>Distt.-Muzaffarpur, Bihar                                     | Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law. |
| 10.     | —do—                                               | 18-Barh                             | Sh. Anandi Mahto,<br>Vill.+Post-Lakhanpura,<br>PS.-Bakhtiyarpur,<br>Patna, Bihar                                        | Failure to lodge any account of election expenses.                           |
| 11.     | —do—                                               | 19-Balia                            | Sh. Ganesh Yadav,<br>Vill.-Bari Balia,<br>Tola Chhawani Par,<br>Post-Hussaina,<br>PS.-Balia,<br>Distt.-Begusarai, Bihar | Failure to lodge any account of election expenses.                           |

| 1   | 2                                                 | 3            | 4                                                                                                                 | 5                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | General Election to the House of the People, 2004 | 19-Balia     | Sh. Kuldip Narayan Singh Patel,<br>Vill.+Post—Sahasi,<br>Distt.—Khagaria,<br>Bihar                                | Failure to lodge any account of election expenses.                               |
| 13. | —do—                                              | —do—         | Sh. Mahboob Alam,<br>Vill.—Nurpur Banhara,<br>Post—Khidirchak,<br>PS.—Bhagwanpur,<br>Distt.—Begusarai, Bihar      | Failure to lodge any account of election expenses.                               |
| 14. | —do—                                              | —do—         | Sh. Shahid Akhtar,<br>Vill.+PO.—Sonihar,<br>Via—Bakhri,<br>PS.—Alauli,<br>Distt.—Khagaria, Bihar                  | Failure to lodge any account of election expenses.                               |
| 15. | —do—                                              | 27-Bhagalpur | Sh. Diwakar Lal Vanshi,<br>N. C. Chatarjee Road,<br>Mundichak, Bhagalpur,<br>Bihar                                | Failure to lodge any account of election expenses.                               |
| 16. | —do—                                              | 31-Nalanda   | Sh. Chandra Bhushan Kumar,<br>Vill.—Mozafra, PO.—Bardih,<br>PS.—Islampur, Nalanda,<br>Bihar                       | Failure to lodge any account of election expenses.                               |
| 17. | —do—                                              | 35-Sasaram   | Sh. Vashishth Paswan,<br>Vill.—Lenger Kaikai,<br>PO.—Dumari,<br>PS.—Chenari,<br>Distt.—Rohtas (Sasaram),<br>Bihar | Failure to lodge any account of election expenses.                               |
| 18. | —do—                                              | —do—         | Sh. Madan Ram,<br>Vill.+Post—Panjraw,<br>PS.—Nuaon,<br>Distt.—Kaimur (Bhabua),<br>Bihar                           | Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law. |
| 19. | —do—                                              | —do—         | Sh. Dukhi Ram,<br>Vill.—Baghini,<br>P.O.—Harnathpur,<br>(Via Mohania),<br>Distt.—Kaimur, Bihar.                   | Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law. |
| 20. | —do—                                              | —do—         | Sh. Pheku Ram,<br>Vill.—Alipur,<br>P.O.—Darwan,<br>Distt.—Kaimur (Bhabua),<br>Bihar.                              | Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law. |
| 21. | —do—                                              | 38-Jahanabad | Sh. Jagya Nand Singh,<br>Vill.—Latanpatti,<br>PO.—Netaul,<br>PS.—Pali (Kako),<br>Distt.—Jahanabad, Bihar          | Failure to lodge any account of election expenses.                               |

| 1   | 2                                                 | 3            | 4                                                                                               | 5                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | General Election to the House of the People, 2004 | 38-Jahanabad | Sh. Satyandra Prasad Yadav,<br>Vill.-Naima, P.O.-Naima,<br>PS-Ghosi,<br>Distt.-Jahanabad, Bihar | Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law. |

[No. 76/BR-HP/2004]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2004

आ० अ० 86.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु राज्य से लोकसभा 2004 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है :-

सारणी

| क.सं. | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क.सं. और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता                                                                 | निरर्हता का कारण      |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                                                                                          | 4                     |
| 1.    | 1-मद्रास केन्द्रीय                      | वसन्ता (श्रीमती)एल,<br>ब्यू नं. 115, मुच्चैया स्ट्रीट,<br>वेलाला तेयनामपेट,<br>चेन्नई-600086,<br>तमिलनाडु। | लेखा दाखिल नहीं किया। |

|    |                 |                                                                                                                                                                   |                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2. | -वही-           | श्री अरुन्धाथी जयगनेश, उर्फ,<br>जयगनेश एस., नं. 7/4,<br>प्रथम तल, (अम्बालम इथाझ)<br>परसुराम ईस्वर कोइल, मैन<br>स्ट्रीट, अयानपुरम,<br>चेन्नई -600023<br>तामिलनाडु। | लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 3. | -वही-           | श्री सुदर्शन, एम.एस., नं. 16,<br>कोल्लन, थोदुम, माधवपुरम,<br>हाई रोड, चेन्नई. 600011<br>तामिलनाडु।                                                                | लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 4. | 3-मद्रास दक्षिण | श्री कुमार, डी.एस.,<br>21-ए. ब्लाक, लायडस् रोड,<br>पी.एम, दरगा, चेन्नई-600005<br>तामिलनाडु।                                                                       | लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 5. | -वही-           | श्री माझई मेनी पांडियन एस.,<br>शुडुपक्कम गाँव, थईयूर पोस्ट<br>गिन्नी तालुक, विल्लुपुरम जिला,<br>तामिलनाडु।                                                        | लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 6. | -वही-           | बोम्मी (श्रीमती) आर., 76/11<br>नोची नगर, माइलापोर,<br>चेन्नई-600041,<br>तामिलनाडु।                                                                                | लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 7. | 5-चिगलपट्टूर    | श्री कृष्णामूर्ति, ए.<br>नं. 82, अन्ना सलाई,<br>चेगलपट्टूर-603002,<br>तामिलनाडु।                                                                                  | लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 8. | -वही-           | श्री सुब्रामनियम, एम.,<br>नं. 34/8, अन्ना नगर,<br>इटीकराई, ओटीक्कै पोस्ट,<br>कांचीपुरम तालुक,<br>कांचीपुरम जिला,<br>तामिलनाडु।                                    | लेखा दाखिल नहीं किया। |

|     |                  |                                                                                                                          |                        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 9.  | -वही-            | श्रीमूर्ति. एन.<br>नं. 23, वडै शेट्टास्ट्रीट,<br>उथिरामेरयुर<br>कांचीपुरम जिला,<br>तामिलनाडु ।                           | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 10. | 8-तिरुपटूर       | श्री कामराज, ए,<br>2/400, अन्जीनेयार<br>कोडल स्ट्रीट, कालासापक्कम,<br>पोलूर तालुक,<br>तिरुवन्नामलाई जिला,<br>तामिलनाडु । | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 11. | -वही-            | श्री श्रीनिवासन आर.,<br>सेटपादूर् ग्राम, चेगम तालुक,<br>तिरुवन्नामलाई जिला,<br>तामिलनाडु ।                               | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 12. | 27-तिरुचिरापल्ली | श्री हेमावथी, वी,<br>नं. 1, सुन्दर नगर,<br>चौथी कास,<br>तिरुचिरापल्ली-21,<br>तामिलनाडु ।                                 | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 13. | -वही-            | श्री अजीमुद्दीन, जी.<br>74, जैल स्ट्रीट, मदुराई रोड,<br>पालाकराई,<br>तामिलनाडु ।                                         | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 14. | -वही-            | श्री साथाकाथुत्ता,<br>मौलाना एन.एम.,<br>4, धौसुं पल्लीवासल स्ट्रीट,<br>मदुराई रोड, तिरुचिरापल्ली-8,<br>तामिलनाडु ।       | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 15. | -वही-            | श्री त्यागराजन, ए,<br>23, कीलेकावलकारा स्ट्रीट,<br>मनाचानात्तुर,<br>तिरुचिरापल्ली जिला,<br>तामिलनाडु ।                   | लेखा दाखिल नहीं किया । |

3685 GI/04-6

|     |               |                                                                                                                                                                 |                       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16. | -वही-         | श्री बालाकृष्णन्, एम.डी.,<br>30, मेला वाटी स्ट्रीट,<br>मानाचानल्लुर<br>तिरुचिरापल्ली जिला,<br>तामिलनाडु ।                                                       | लेखा दाखिल नही किया । |
| 17. | -वही-         | पिलान्दी नलमेरी, ए.<br>26, भारतीयार स्ट्रीट,<br>सुब्रामणियापुरम मानाचानल्लुर,<br>तिरुचिरापल्ली .20,<br>तामिलनाडु ।                                              | लेखा दाखिल नही किया । |
| 18. | 34-रामनाथपुरम | श्री तमिलियारसन, एम.,<br>सुपुत्र टी. मुनियान्दी<br>पांडी कानमई गाँव,<br>रामनाथपुरम जिला,<br>तामिलनाडु ।                                                         | लेखा दाखिल नही किया । |
| 19. | -वही-         | श्री अन्काजसामी, ए.,<br>सुपुत्र अलागार सामी,<br>69ए, पुराना नं. 51 ए1,<br>मुशुवायाल (ग्राम)<br>पारामकुडी तालुक,<br>तामिलनाडु ।                                  | लेखा दाखिल नही किया । |
| 20. | -वही-         | श्री मुशुककारुन्बान, एन.,<br>सुपुत्र टी. मुनियान्दी, नं. 3 ए.2,<br>करीसाथा अय्यानर, कोडल स्ट्रीट,<br>पेरियारनगर, रामनाथपुरम,<br>रामनाथपुरम जिला,<br>तामिलनाडु । | लेखा दाखिल नही किया । |
| 21. | -वही-         | श्री वीराया टी.,<br>सुपुत्र थावासी,<br>22, काडयाकुलम मेलासेलवान्नूर<br>थाडाला डी तालुक,<br>रामनाथपुरम जिला,<br>तामिलनाडु ।                                      | लेखा दाखिल नही किया । |

|     |                    |                                                                                                                                                |                        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 22. | 37-देनकासी (अ.जा.) | श्री अमृतराज, टी.<br>सुपुत्र शानुसकोडी,<br>सुन्दरा कुडुमबनपट्टी,<br>चेदुडियानपट्टी पोस्ट,<br>सन्नूर तालुक,<br>तिरुव्यानगर जिला,<br>तामिलनाडु । | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 23. | -वही-              | श्री सरवानन टी,<br>सुपुत्र शिम्बी कारुपन,<br>5/459, मिडिल स्ट्रीट,<br>सन्नकरनगर पोस्ट, थलईयुथु,<br>तिरुनेलवेली तालुक,<br>तामिलनाडु ।           | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 24. | -वही-              | चेत्तामाल, ए.,<br>पत्नी वी अरुमुगाम,<br>5/103, अरुन्धाथियार स्ट्रीट,<br>अलानगुलाम-627851<br>तामिलनाडु ।                                        | लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 25. | -वही-              | वाडीवेल कुमार, एम.,<br>सुपुत्र माडासामी,<br>137, पल्लामादई,<br>मानुर पोस्ट,<br>तिरुनेलवेली तालुक,<br>तामिलनाडु ।                               | लेखा दाखिल नहीं किया । |

[सं० 76/त.ना.-लो.स./2004]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2004

**O. N. 86.**— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2004 held from the Constituencies of Tamil Nadu State as specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

**TABLE**

| Sl. No. | No. & Name of Parliamentary Constituency | Name & Address of the contesting candidate.                                                                                                                           | Reason for disqualification |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | 2.                                       | 3.                                                                                                                                                                    | 4.                          |
| 1.      | 2-Madras Central                         | Vasantha, (Tmt.) L.<br>New No. 115, Muthiah Street,<br>Velala Teynampet,<br>Chennai-600 086<br>Tamil Nadu                                                             | Accounts not lodged         |
| 2.      | -do-                                     | Shri Arunthathi Jaiganesh (alias)<br>Jaiganesh, S.<br>No. 7/4, Ist Floor, (Ambalam<br>Ithazh),<br>Parasurama Eswar Koil Main<br>Street, Ayanpuram,<br>Chennai-600 023 | Accounts not lodged         |
| 3.      | 2-Madras Central                         | Shri Sudharsan, M.S.<br>No. 16, Kollan,<br>Thottam, Madhavaram<br>High Road,<br>Chennai- 600 011                                                                      | Accounts not lodged         |
| 4.      | 3-Madras South                           | Shri Kumar, D. S.<br>21 A Block<br>Lloyds Road, P.M. Darga,<br>Chennai-600 005,<br>Tamil Nadu                                                                         | Accounts not lodged         |
| 5.      | -do-                                     | Shri Mazhai Meni Pandiyan, S.<br>Thudupakkam Village,<br>Thaiyoor Post Gingi Taluk,<br>Vilupuram District,<br>Tamil Nadu.                                             | Accounts not lodged         |
| 6.      | -do-                                     | Bommi, (Tmt.) R.<br>76/11, Nochi Nagar<br>Mylapore,<br>Chennai -600 041<br>Tamil Nadu                                                                                 | Accounts not lodged         |

|     |                    |                                                                                                                                              |                     |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7.  | 5-Chengalpathu     | Shri Krishnamoorthy, A.<br>No. 82, Anna Salai,<br>Chengalpattu-603 002,<br>Tamil Nadu                                                        | Accounts not lodged |
| 8.  | -do-               | Shri Subramaniam, M.<br>No. 34/8, Anna Nagar,<br>Erikkarai,<br>Orikkai Post,<br>Kancheepuram Taluk,<br>Kancheepuram District,<br>Tamil Nadu. | Accounts not lodged |
| 9.  | -do-               | Shri Moorthy, N.<br>No. 23, Vazhai Thotta Street,<br>Uthiramerur,<br>Kancheepuram District,<br>Tamil Nadu.                                   | Accounts not lodged |
| 10. | 8-Tiruppattur      | Shri Kamaraj, A.<br>2/400, Anjineyar Koil Street,<br>Kalasapakkam,<br>Polur Taluk,<br>Tiruvannamalai District,<br>Tamil Nadu                 | Accounts not lodged |
| 11. | -do-               | Shri Srinivasan, R.<br>Serpapattu Mottur Village<br>Chengam Taluk<br>Tiruvannamalai District,<br>Tamil Nadu.                                 | Accounts not lodged |
| 12. | 27-Tiruchirappalli | Shri Hemavathy, V.<br>No. 1, Sundar Nagar,<br>4 <sup>th</sup> Cross,<br>Tiruchirappalli-21.<br>Tamil Nadu.                                   | Accounts not lodged |
| 13. | -do-               | Shri Ajimudeen. G.<br>74, Jail Street,<br>Madurai Road,<br>Palakkarai,<br>Tamil Nadu.                                                        | Accounts not lodged |
| 14. | -do-               | Shri Sathakathulla<br>Moulana, N.M.<br>4, Ghousur Pallivasal Street,<br>Madurai Road,<br>Tiruchirappalli.8.<br>Tamil Nadu.                   | Accounts not lodged |

3685 GZ/04-7

|     |                    |                                                                                                                                                                              |                     |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15. | -do-               | Shri Thiagarajan, A.<br>23, Keelekavalkara Street,<br>Manachanallur,<br>Tiruchirappalli District,<br>Tamil Nadu.                                                             | Accounts not lodged |
| 16. | -do-               | Shri Balakrishnan. M.D.<br>30, Melavari Street,<br>Manachanallur,<br>Tiruchirappalli District,<br>Tamil Nadu.                                                                | Accounts not lodged |
| 17. | 27-Tiruchirappalli | Pilantinal Mary, A.<br>26, Bharathiyar Street,<br>Subramaniapuram,<br>Tiruchirappalli.20.<br>Tamil Nadu.                                                                     | Accounts not lodged |
| 18. | 34-Ramanathapuram  | Shri Tamilarasan, M.<br>S/o T. Muniyandi,<br>Pandikanmai Village,<br>Paramakudi Taluk,<br>Ramanathapuram District,<br>Tamil Nadu                                             | Accounts not lodged |
| 19. | -do-               | Shri Ankajsamy, A.<br>S/o, Alagar Samy,<br>69A, Old No. 50A1,<br>Muthuvayal (Village)<br>Paramakudi Taluk,<br>Ramanathapuram District,<br>Tamil Nadu                         | Accounts not lodged |
| 20. | -do-               | Shri Muthukkarungan, M.<br>S/o, T. Muniyandi,<br>No. 3F2,<br>Koorisatha Ayyanar Koil Street,<br>Peiryar Nagar,<br>Ramanathapuram,<br>Ramanathapuram District,<br>Tamil Nadu. | Accounts not lodged |
| 21. | -do-               | Shri Veeraya, T.<br>S/o. Thavasi,<br>22, Kadayakulam,<br>Melaselvanoor,<br>Kadaladi Taluk,<br>Ramanathapuram District,<br>Tamil Nadu                                         | Accounts not lodged |

|     |                 |                                                                                                                                                     |                     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22. | 37-Tenkasi (SC) | Shri Amirtharaj, T.<br>S/o, Thanuskodi<br>Sundara Kudumbanpatti,<br>Chettudianpatty Post,<br>Sattur Taluk,<br>Virudhunagar District,<br>Tamil Nadu. | Accounts not lodged |
| 23. | 37-Tenkasi (SC) | Shri Saravanan, T.<br>S/o. Thimbi Karuppan,<br>5/459, Middle Street,<br>Sankarnagar Post,<br>Thalaiyuthu,<br>Tirunelveli Taluk,<br>Tamil Nadu.      | Accounts not lodged |
| 24. | -do-            | Chellammal, A.<br>W/o V. Arumugam,<br>5/103, Arunthathiyar Street,<br>Alangulam-627 851.<br>Tamil Nadu.                                             | Accounts not lodged |
| 25. | -do-            | Vadivel Kumar, M.<br>S/o Madasamy,<br>137, Pallamadai,<br>Manur Post,<br>Tirunelveli Taluk,<br>Tamil Nadu.                                          | Accounts not lodged |

[No. 76/TN-HP/2004]

By Order,

K. R. PRASAD, Secy.